



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

विद्युत प्रणाली योजना एवं मूल्यांकन प्रभाग-II

Power System Planning & Appraisal Division-II

सेवा में / To,

Shri Arvind Patle, AGM (SO & Commercial),
NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited,
5th Floor, EOC, A-8A, Sector-24,
Noida-201301

विषय: मध्यावधि आधार पर हरियाणा डिस्कॉम द्वारा 200 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए देवीघाट जल विद्युत परियोजना, नेपाल से भारत में 14.55 मेगावाट बिजली के आयात के लिए नामित प्राधिकारी का अनुमोदन ।

Subject: Approval of Designated Authority for import of upto 14.55 MW of power from Devighat Hydro Power Project, Nepal to India for procurement of upto 200 MW power by Haryana Discoms on medium term basis -reg.

संदर्भ/ Reference:

- NVVN application no. NVVN/CommDA/Medium term dated 19.03.2025
- DA approval dated 19.08.2024
- NVVN application no NVVN/CommDA/Medium term dated 03.04.2024
- DA approval dated 05.09.2023
- NVVN application no. NVVN/CommDA/ Medium term dated 10.07.2023

महोदय /Sir,

This has reference to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN) application dated 19.03.2025 seeking approval of Designated Authority (DA) for import of upto 14.55 MW of power from Devighat Hydro Power Plant, Nepal to Haryana Discom(s), in addition to the earlier approved quantum (184.61 MW) through NVVN for meeting balance power requirement of Haryana Discom(s) on medium term basis through NVVN for wet season months.

1. The matter has been examined in accordance with the Guidelines for Import/Export (Cross Border) of Electricity- 2018 and Procedure for Approval and facilitating Import/Export (Cross Border) of Electricity. Based on the concurrence from the Government, approval of Designated Authority is hereby conveyed to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN) for import of upto 14.55 MW of power from Devighat Hydro Power Plant, Nepal to Haryana Discom(s), in addition to the earlier approved quantum (184.61 MW) through Muzaffarpur-Dhalkebar 400 kV D/c line for time period as mentioned below:

Name of the Generators	Quantum (MW)	Duration
Devighat Hydropower Project	Upto 14.55 MW	i. 12 th June 2025- 31 st October 2025 ii. 1 st June 2026- 31 st October 2026 iii. 1 st June 2027- 31 st October 2027

2. Total approved quantum for cross border flow of power from Nepal to Haryana Discom(s) under bilateral mode is as follows:

S. N.	Name of Generator	Quantum (MW)	Duration
1	Solu Khola (Dudhkoshi) Hydro Power Project	83.42	i. 5 th Sep 2023 to 31 st October 2023 ii. 1 st June 2024 - 31 st October 2024
2	Dordi Khola Hydro Power Project	26.19	iii. 1 st June 2025 – 31 st October 2025 iv. 1 st June 2026 – 31 st October 2026 v. 1 st June 2027 – 31 st October 2027
3	Likhu-1 Hydro Power Project	75	i. 19 th August 2024- 31 st October 2024 ii. 1 st June 2025- 31 st October 2025 iii. 1 st June 2026- 31 st October 2026 iv. 1 st June 2027- 31 st October 2027
4	Devighat Hydro Power Project	14.55	i. 12 th June 2025- 31 st October 2025 ii. 1 st June 2026- 31 st October 2026 iii. 1 st June 2027- 31 st October 2027
TOTAL		Upto 199.16 MW	

3. This approval is subject to the following conditions:

- Real time generation data (MW, MVAR, etc.) and daily energy generation (MWh) of the Devighat Hydro Power Project shall be made available to NLDC, India.
- Govt. of India reserves the right to import/ export electricity from/ to

neighbouring countries for reason of larger policy interests, and same shall be binding on the Participating Entity.

- (c) NVVN and other participating entities, involved in this transaction, shall comply with the applicable Rules/Guidelines/Regulations/Standards of Government of India/CEA/CERC. The grant of approval by the Designated Authority for participation in Import/Export (Cross Border) of Electricity shall not entitle NVVN any rights or extra privileges over and above the applicable laws.

भवदीय/Yours faithfully,


12/06/2025
(फारुख इकबाल/ Farooque Iqbal)

निदेशक/ Director

Copy to:

1. JS (Trans.), Ministry of Power, SS Bhawan, New Delhi
2. ED, NLDC- may ensure availability of generation data at NLDC, before scheduling.
3. US (Nepal), MEA
4. CGM, NVVN (as SNA) — for necessary action as per the guidelines